

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, डिहरी

पत्रांक..... 935 (अप्रै)
प्रेषक,

डिहरी / दिनांक 08/08/23

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, डिहरी

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी -सह-सचिव,
ब्राडा,
भूमि विकास बैंक भवन,
बुद्ध मार्ग, पटना।

विषय :- MR New Maintenance policy-2018 में किये गये कार्य के विरुद्ध
आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि MR New Maintenance policy-2018 अर्न्तगत कराये गये कार्यों के विरुद्ध संवेदक को भुगतान करने हेतु अधियाचना विहित प्रपत्र में भरकर आवश्यक कार्यवाही हेतु समर्पित की जाती है। इस पथ में कोई भी ATR लंबित नहीं है। उक्त पथ का सभी डाटा की प्रविष्टि MIS पर अद्यतन है।

अनु :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

M Kumar
08.08.23

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, डिहरी

1/15
08/08/23

FORM GFR 19 -A
(SEE GOVERNMENT of India's Decesion (I) below Rule - 150)
Form of Utilisation Certificate upto the Month of Aug. 2023
NEW MAINTENANCE POLICY 2018 MR (3054)

PIU - RWD DEHRI

S.No	Name of Scheme	Sanction No. & Date	Amount Received	Particulars
		With amount(in Rs. Lacs)	(In Rs. Lacs)	
1	Contruction of Rural Road under MR-3054	102 21.07.2023	4201.78902	Certificate that out of Rs. 4201.78902 Lacs received during the years in favour of Executive Engineer , RWD Dehri Bihar. Sum of Rs. 4079.52097 Lacs has been utilised for the purpose of MR (3054)-2018 Fund hences as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 122.26805 Lacs remaining unutilized at the end of the period under.
TOTAL			4201.78902	

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grand-in-aid

- 2 was sanctioned have been duly fulfilled / are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of Checks exercised :-

- Works have been supervised by Executive Engineer / Supertending Engineer.
- Periodical inspeioin has been conducted by Executive Engineer / Supertending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant.
- All other codal formalities have been observed.

3 **Physical Progress achieved :-**

- Construction of Road works.
- Construction of CD works.

Y. G. 10
08/8/23

D.A.O
RWD (W) Div. Dehri

N. Kumar
08.08.23

Executive Engineer
RWD (W) Div. Dehri

Office of the Executive Engineer, Rural Works Department, Works Division, Dehri
Requisition format Scheme Head MR (3054) under Bihar road Maintenance Policy-2018 (Rectification and Surface Renewal)

Sl No.	Package No.	Name of Road	Project Id as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. and Date	Administrative Approval (AA)		Agreement (in Lakh)		Agreement No. and Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/Km)	Thickness of Bitumin Layer (in mm)	Value of Bitumin Content in Percentage	Previous total amount (in Lakh)	Up to Date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition Done (in Lakh)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	RM/RO/DEH/22/0003	LO28-Dehri Yadunathpur Road to Hanikarpur (ODR8)	10301202041	2008/02-05-2022	1.158	68 902	53.16378	16 74371	RM/RO/DEH/13/M R-3054/MBD/2022-23/01.03.2023	30.11.2023	-	2515	25 MM	5%	0	0	38.90000	Complete
2	RM/RO/DEH/22/0003	LO66 - PWD Road to Narayanpur Sujampur (VR40)	10301202023	2008/02-05-2022	1.77	89 656	77.36855	19 2464	RM/RO/DEH/13/M R-3054/MBD/2022-23/01.03.2023	30.11.2023	-	2531	25 MM	5%	0	0	68.5170	Complete
3	RM/RO/DEH/22/0003	PWD Road - Bhaishal	10301202027	2008/02-05-2022	0.84	39 369	33.88708	8 46877	RM/RO/DEH/13/M R-3054/MBD/2022-23/01.03.2023	30.11.2023	-	2504	25 MM	5%	0	0	29.61000	Complete

नोट -

- विभागीय पत्रांक-मु030(मु) 3054-4-04/2020 पार्ट 4 5047 दिनांक 23.12.2021 के आलेख में प्रमाणित किया जाता है कि-
- गणना पूर्ण एवं विशिष्टियों के अनुसार कार्य कराने के बाद MIB में दर्ज किया गया है।
 - सम्बंधित कार्य कभीय अभियंता द्वारा करवाया गया (100% जांचा गया) सहायक अभियंता द्वारा 50% तथा कार्यप्रगतिक अभियंता द्वारा 10% जांचा गया तथा MIS पर Upload किया गया।

D.A.O
RWD (W) Div. Dehri

EXECUTIVE ENGINEER
RWD, WORKS DIVISION,
DEHRI

Road Name- L028-Dehri Yadunathpur Road to Hankarpur

Contractor Name- Hollyhock Infrastructures Private Limited

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI mm/km	TEGORY ROAD	Latitude	Longitude	Event
8/8/23	10:39:40	18	0.1	240	10.1	2200	2615	G	24.56613	83.86336	Normal
8/8/23	10:40:0	18	0.1	310	20.2	2300	2715	G	24.56470	83.86318	Normal
8/8/23	10:40:15	18	0.1	180	20.2	1900	2315	G	24.56449	83.86328	Normal
8/8/23	10:40:27	18	0.1	190	20.2	1900	2315	G	24.56330	83.86354	Normal
8/8/23	10:40:46	18	0.1	240	20.2	2100	2515	G	24.56211	83.86354	Normal
8/8/23	10:41:2	18	0.1	180	10.1	1800	2215	G	24.56204	83.86351	Normal
8/8/23	10:41:30	18	0.1	250	10.1	2200	2615	G	24.56065	83.86347	Normal
8/8/23	10:41:37	18	0.1	260	20.2	2600	3015	G	24.56016	83.86335	Normal
8/8/23	10:42:0	18	0.1	200	20.2	2000	2415	G	24.55914	83.86280	Normal
8/8/23	10:42:12	18	0.1	320	20.2	2400	2815	G	24.55860	83.86205	Normal
8/8/23	10:42:24	18	0.1	200	20.2	2000	2415	G	24.55882	83.86122	Normal
8/8/23	10:42:48	18	0.1	330	10.1	1800	2215	G	24.55911	83.86023	Normal

$$Y = 0 * X^2 + 1.000 * X + 415.2$$

$$X = 2900$$

$$Y = 3315$$

(R) RURAL ROAD

Good Average Poor

IRI Value

Average IRI-2515

Y. Mond
08/08/23
A.E

Muhammad
08.08.23
EE

Name of Customer : Infrastructure Private Limited
Name of Work/Road : Saranpur Road to Hankapur Road
Lab Job number : 18
Date : 08-08-2023
Section No. : 18


Test Date : 08-08-2023
Road Name : Jdunohpur Road to Hankapur
Machine No. : 412
Road Type : (3) RURAL ROAD
Start S No. : 323
Side : Naughta
Start E No. : 335
Interval :
Weather : Normal
UV Range : 1215 To 4000 mm/km
Start Location : 6613.83 86330
Dist Range : 0 To 13 01 -1000 m
End Location : 65911.83 86027
Equation : $0 \cdot X^2 + 1.000 \cdot X + 415.2$

Print Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View

File: C:\Users\BHRDA\2\Desktop\2023\Bump Report\Hollyhock Infrastructure Private Limited\11028-Dehi
 Name of Customer : Name of Work/Road : Lab Job number :



X. Hand
 08/08/23
 A.E
 M. Kumar
 08.08.23